

([www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in) पर प्रकाशन हेतु)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 1100124

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग (भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधीन) में सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी, प्रभागीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रिक्त पदों को भरने हेतु संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2018 के माध्यम से चुने गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना :-

कुल 648 अभ्यर्थियों का नामांकन विभिन्न पदों (298 - सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; 150 - प्रभागीय लेखाकार एवं 200 - लेखापरीक्षक) के लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा - 2018 के माध्यम से किया गया है।

2. सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी, प्रभागीय लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के पदों पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों का आवंटन विभिन्न राज्यों में अवस्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में उनके द्वारा भरे गये राज्य प्राथमिकता एवं उनके अंतिम परिणाम में प्राप्त मेधा के आधार पर किया जाता है। साथ ही, जिनके पास वाणिज्य में स्नातक अथवा वांछनीय अहर्ता (सनदी लेखाकार अथवा लागत एवं प्रबंधन लेखाकार अथवा कंपनी सचिव अथवा वाणिज्य निष्णात अथवा व्यवसाय अध्ययन निष्णात अथवा व्यवसाय प्रशासन निष्णात (वित्त) अथवा व्यवसाय अर्थशास्त्र निष्णात), को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर तथा रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, अधिमानतः वाणिज्यिक स्ट्रीम के लिए आवंटित किया जाएगा।

3. संबन्धित पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों के राज्यों का आवंटन कम्प्यूटर पद्धति के आधार पर होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वेबसाइट ([www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)) पर उपलब्ध है। इस विभाग में नामित सभी अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि उक्त वेबसाइट पर दी गयी सूचना देखें एवं अपनी व्यक्तिगत जानकारी, राज्य की प्राथमिकता एवं सत्यापन फॉर्म संबन्धित वांछित जानकारी (URL <http://cag.delhi.nic.in/statechoice> पर) भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 अप्रैल 2021 से प्रारम्भ होगी तथा 17 मई 2021 तक जारी रहेगी।

4. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित ऑनलाइन सूचना भरने से पहले सावधानीपूर्वक सूचना को पढ़ें। विवरण भरने के बाद, अभ्यर्थियों को परामर्श दी जाती है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, राज्य की प्राथमिकता एवं सत्यापन फॉर्म संबन्धित वांछित जानकारी की प्रिंट कर लें। उसी हार्ड कॉपी को स्व हस्ताक्षरित करके इस कार्यालय को 07 जून 2021 तक पहुंचना अनिवार्य है।

5. लिफाफे के ऊपर बायीं तरफ परीक्षा का नाम (CGLE-2018) और पद का नाम (सहायक लेखा परीक्षक अधिकारी/प्रभागीय लेखाकार/लेखा परीक्षक) का उल्लेख करें। व्यक्तिगत जानकारी, राज्य की प्राथमिकता एवं सत्यापन फॉर्म संबन्धित वांछित जानकारी की स्व हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी को "Speed Post" से इस पता पर भेजें :-

सुश्री सुप्रिया सिंह

सहायक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (अराज.)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,  
9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 1100124